

## इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स और ईवी


स्रोत: पी. आई.बी.

### चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के साथ-साथ 'अनलॉकंग ए \$200 बिलियन ऑपरच्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भी जारी की।

### इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) क्या है?

- परिचय: IEMI भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति को ट्रैक और मूल्यांकन करता है।
- मुख्य वषिय: IEMI प्रदर्शन का आकलन करने के लिये तीन वषियों के अंतर्गत 16 संकेतकों का उपयोग करता है।
  - परविहन वदियुतीकरण प्रगति: इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और मांग-पक्ष कारकों को मापता है।
  - चारजगि अवसंरचना की तत्परता: EV चार्जगि स्टेशनों और संबंधित अवसंरचना के विकास और उपलब्धता का आकलन करता है।
  - EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति: EV क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों, पेटेंट और नवाचार को ट्रैक करता है।
  - IEMI स्कोर 0-100 पैमाने पर एक समग्र स्कोर है जो ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है।



IEMI Theme and Indicator Weightages

- इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024:
  - अग्रणी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (स्कोर: 65-99): दलिली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़।
  - प्रदर्शनकारी राज्य (स्कोर: 50-64): कर्नाटक, तमलिनाडु, हरयाणा।

